कंपनी समाचार 3

बाजार नियामक सेबी ने आरोप लगाया है कि एनएसई की पूर्व एमडी व सीईओ चित्रा रामकृष्णा और परिचालन

बिना बार-बार वेतन बढोतरी को रेखांकित किया गया है और इसमें कहा गया है कि इस कार्य में मानव संसाधन प्रमुख या नामांकन व मुआवजा समिति को भी शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि सुब्रमण्यन को हर महीने एक तय रकम किसी अनाम व्यक्ति को कृतज्ञता के तौर पर देने का निर्देश दिया गया था। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत बरूआ ने आदेश

तरीके से बढोतरी की गई।

उन्हें मार्च 2013 में एनएसई में शामिल किया गया और

नियुक्त किया गया था, बावजूद इसके उनका वेतन

एनएसई को दी जानकारी में रामकृष्णा ने कहा है

रामकृष्णा व सुब्रमण्यन ने चलाई मनी मेकिंग स्कीम

मुंबई, 17 फरवरी

अधिकारी (समूह) व उनके सलाहकार आनंद सुब्रमण्यन ने अपने कार्यकाल के दौरान नैशनल स्टॉक एक्सचेंज में मनी मेकिंग स्कीम चलाई। 11 फरवरी को सेबी की तरफ से पारित आदेश में उचित अप्रैजल, दस्तावेजीकरण या फाइल नोटिंग के

में कहा है, यह मनी मेकिंग स्कीम का ज्वलंत षडयंत्र नजर आ रहा है, जिसमें रामकृष्णा व सुब्रमण्यन किसी अनाम व्यक्ति के साथ शामिल थे। इसके तहत रामकृष्ण,

सुब्रमण्यन के वेतन में बढ़ोतरी करेंगी और फिर अनाम व्यक्ति को बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाएगा। इससे यह भी पता चलता है कि उनके वेतन में मनमाने एनएसई से पहले सुब्रमण्यन बामर ऐंड लॉरी की इकाई के साथ उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे और वह भी 15 लाख रुपये सालाना से कम वेतन पर।

वेतन रहा 1.68 करोड़ रुपये सालाना, जिसमें 42 लाख रुपये वेरिएबल पे था। अप्रैल 2016 में सुब्रमण्यन का वेतन बढ़कर 4.21 करोड़ रुपये पर पहुंच गया था, जो पूर्व नियोक्ता से मिलने वाले वेतन के मुकाबले 28 गुना सब्रमण्यन को वहां सिर्फ कंसल्टेंट के तौर पर

कि सुब्रमण्यन को दिए गए वेतन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। इस दलील को सेबी ने खारिज कर दिया।

सूचीबद्धता के दिन के बंद भाव से नीचे कारोबार कर रहे 32 शेयर आनंद सुब्रमण्यन के बारे में क्या कहता है एनएसई का डीआरएचपी

फेडरल की दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की संभावना और बाजारों मे गिरावट के बावजूद विश्लेषक प्राथमिक बाजार के पटरी पर रहने की उम्मीद जता रहे हैं

पुनीत वाधवा नई दिल्ली, 17 फरवरी

छले कुछ महीनों में इक्विटी बाजारों में हुई तेज गिरावट से 2021-22 में एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कुछ शेयर काफी नुकसान में रहे हैं। वित्त वर्ष 22 में कुल 54 कंपनियों ने प्राथमिक बाजार से करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये जुटाए। इनमें से 32 कंपनियों के शेयर अभी सूचीबद्धता के दिन के बंद भाव से नीचे कारोबार कर रहे हैं और निदान लैबोरेटरीज ऐंड हेल्थकेयर, कारट्रेड टेक, आशिका हॉस्पिटल्स, सिगाची इंडस्ट्रीज, वन97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम की मूल कंपनी) और फिनो पेमेंट्स बैंक को सबसे ज्यादा झटका लगा है और इनमें 59 फीसदी तक की गिरावट दर्ज हुई है।आंकडों से यह जानकारी मिली।

नई पीढ़ी की तकनीक व फूड डिलिवरी कंपनियां मसलन पीबी फिनटेक, जोमैटो और एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स (नायिका की मूल कंपनी) में भी सचीबद्धता के दिन के बंद भाव के मुकाबले 31 फीसदी से लेकर 45 फीसदी तक की नरमी देखने को मिली है। 52 हफ्ते के उच्चस्तर से गिरावट और भी तेज रही है और सभी 54 शेयर 16 फीसदी



सूचीबद्धता के बाद बुरा हाल

- कई आईपीओ की कीमत आक्रामकता से तय हुई थी। कुछ में मूल्यांकन से जुड़ी चिंता थी
- इससे सूचीबद्धता के बाद निवेशकों के लिए बहुत कुछ नहीं बचा
- बीएसई आईपीओ इंडेक्स वित्त वर्ष 22 में अब तक करीब 29 फीसदी

से लेकर 59 फीसदी तक टूटे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के

उपप्रमुख (खुदरा शोध) देवर्ष वकील ने कहा, मुझे लगता है कि कई आईपीओ की कीमत आक्रामकता से तय हुई थी। कुछ में मूल्यांकन से जुड़ी चिंता थी। इससे सूचीबद्धता के बाद निवेशकों के लिए बहुत कुछ नहीं बचा। हम पूरे मामले को एक नजरिये से नहीं देख सकते। फंडामेंटल के स्तर पर कुछ वित्तीय तकनीकी कंपनियों के बिजनेस मॉडल को लेकर इश्यू हैं। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो लाभ में आई और आगे बढ़ी।

मैक्रोटेक डेवलपर्स, बार्बेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी, सोना बीएलडब्ल्यू प्रीसिजन फोर्जिंग्स, अदाणी विल्मर, पारस डिफें स और देवयाणी इंटरनैशनल जैसे शेयर अभी भी सूचीबद्धता के दिन के बंद भाव के मुकाबले 34 फीसदी से लेकर 172 फीसदी की बढत पर कारोबार कर रहे हैं।

बीएसई आईपीओ इंडेक्स वित्त वर्ष 22 में अब तक करीब 29 फीसदी चढ़ा है जबिक इस दौरान एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में 17 फीसदी की बढत दर्ज हुई है।

फेडरल रिजर्व की तरफ से दरों में आक्रामक बढोतरी की संभावना और इक्विटी बाजारों मे गिरावट के बावजद विश्लेषक प्राथमिक बाजार के पटरी पर रहने की उम्मीद जता रहे हैं, हालांकि अल्पावधि के कुछ अवरोध हो सकते हैं।

एलआईसी का आईपीओ जल्द आने वाला है और विश्लेषकों को उम्मीद है कि द्वितीयक बाजार की नकदी बाहर निकलेगी क्योंकि यह बडे आईपीओ में लगाई जाएगी। हालांकि उनका मानना है कि सूचीबद्धता के बाद सामान्य स्थिति जल्द बहाल हो जाएगी।

आईआईएफएल सिक्योरिटीज के चेयरमैन आर वेंकटरामन ने कहा, एलआईसी का आईपीओ काफी बडा है और यह सिस्टम से करीब 65,000 करोड़ रुपये खींच सकता है। लेकिन यह अस्थायी होगा और एलआईसी की सूचीबद्धता के एक महीने के भीतर नकदी को लेकर सामान्य स्थिति

को इसमें 4 प्रतिशत से ज्यादा की

करीब 1.5 प्रतिशत के नुकसान के

साथ ८४८ रुपये पर बंद हुआ। इस

शेयर में अपने सूचीबद्धता भाव के

मुकाबले 56 प्रतिशत से ज्यादा की

पेटीएम गुरुवार को एनएसई पर

तेजी दर्ज की गई।

मुंबई, 17 फरवरी देश के सबसे बड़े एक्सचेंज एनएसई ने दिसंबर 2016 में बाजार नियामक सेबी के पास विवरणिका का मसौदा जमा कराया था। 10,000 करोड़ रुपये के इस आईपीओ के लिए आवेदन आनंद सुब्रमण्यन के ग्रुप ऑपरेटिंग अफसर व एमडी के सलाहकार

के पद से इस्तीफा दिए जाने के महज दो

महीने के भीतर और चित्रा रामकष्णा का

एमडी व सीईओ पद से हटने के कुछ हफ्तों

के भीतर किया गया था। कोलोकेशन घोटाले

की पृष्ठभूमि व सुब्रमण्यन की नियुक्ति व

पदोन्नित में अनियमितता के आरोपों पर

था। पेशकश दस्तावेज के मुताबिक, 15

सितंबर, 2016 के सेबी के पत्र में हमें सलाह

सामने रखा जाए और इस पर फैसला हो

कि क्या आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति के

समय आचार संहिता या हितों का टकराव

रोकने वाले सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ या

नहीं। आनंद सुब्रमण्यन ने अपना कंसल्टेंटी

असाइनमेंट 21 अक्टूबर, 2016 को बंद कर

दिया और सेबी को इस बारे में सूचना 21

दिसंबर, 2016 को ईमेल के जरिए दी गई।

सुब्रमण्यन की एनएसई में नियुक्ति बडा

है कि उसे 15 दिसंबर, 2015, 25 मई,

2016 और 11 नवंबर 2016 को शिकायत

मिली, जिसमें सुब्रमण्यन की नियुक्ति के

मामले में रामकृष्ण की तरफ से गवर्नैंस में

खामी का मामला सामने आया।

विवाद पैदा कर रही है।

आईपीओ दस्तावेज के पांच साल बाद

सेबी ने पिछले हफ्ते जारी आदेश में कहा

डीआरएचपी में जोखिम के प्रमख कारक

चित्रा ने इस्तीफा दिया था।

डीआरएचपी में जोखिम के प्रमुख कारक आम तौर पर शामिल किए जाते हैं, लेकिन इसमें सुब्रमण्यन का मामूली सा जिक्र भर था

आम तौर पर शामिल किए जाते हैं, लेकिन नियामक ने एनएसई को 19 फरवरी, इसमें सुब्रमण्यन का मामूली सा जिक्र भर 2016, 24 मई 2016, 27 मई 2016, 20 जून 2016 और 30 जून 2016 को ईमेल भेजकर सुब्रमण्यन की नियुक्ति पर और दी गई है कि शिकायत पत्रों को बोर्ड के स्पष्टीकरण मांगा था।

> तब एनएसई के मुख्य नियामकीय अधिकारी ने 14 मार्च 2016 और 30 जून 2016 को ईमेल के जरिए सेबी से कहा था कि नियुक्ति में किसी तरह का उल्लंघन नहीं

सेबी की तरफ से सुब्रमण्यन के मामले में एनएसई को लगातार भेजे गए रिमाइंडर पर डीआरएचपी मौन है।

पिछले हफ्ते के आदेश में कहा गया है, सेबी ने लगातार रिमाइंडर भेजे, जिसके परिणामस्वरूप एनएसई ने 22 नवंबर 2017 को रिपोर्ट सौंपी, जो 29 नवंबर 2017 को ईमेल के जरिए भेजे गए।

डीआरएचपी में रामकष्णा के इस्तीफे की बात कही गई है और उनकी जगह नियुक्ति के लिए उचित व्यक्ति न मिलने को जोखिम बताया गया है।

एलआईसी के आईपीओ से अन्य बीमा शेयरों पर दबाव रॉयटर्स

मुंबई, 17 फरवरी

फंड प्रबंधकों और विश्लेषकों का कहना है कि अगले महीने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आईपीओ पेशकश ने अन्य बीमा कंपनियों के शेयरों पर दबाव पैदा कर दिया है, क्योंकि निवेशकों ने सरकार के स्वामित्व वाली इस कंपनी में संभावना तलाशने के लिए अपना निवेश घटाया है।

रेफिनिटिव आंकड़े के अनुसार, सरकार ने कंपनी में अपनी 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास रविवार को डीआरएचपी सौंपा था. और यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी आईपीओ और इस साल की सबसे बडी एशियाई शेयर बिक्री में से एक हो सकती है।

एक फंड प्रबंधक ने नाम नहीं बताने के अनुरोध के साथ कहा. 'यह सबसे बडा आईपीओ होगा और आपको इसके लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि यह दुर्लभ समय है जब किसी बड़ी कंपनी की सूचीबद्धता में इतना ज्यादा विलंब हो रहा है।'

फंड प्रबंधकों का कहना है कि यदि एलआईसी का मुल्यांकन आकर्षक रहा तो अन्य बीमा कंपनियों पर दबाव पड सकता है।

टेक स्टार्टअप कंपनियों के लिए बरकरार हैं चुनौतियां

दीपशेखर चौधरी बेंगलूरु, 17 फरवरी

पिछली कुछ तिमाहियों में सूचीबद्ध हुईं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनियों को ऊंची विपणन एवं कर्मचारी लागत की वजह से दिसंबर तिमाही में अपने मुनाफे पर दबाव का सामना करना पड़ा है।

जहां फिनटेक कंपनियों पेटीएम

और पीबी फिनटेक के लिए नुकसान सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़कर 778 करोड़ रुपये और 55 प्रतिशत बढ़कर 295 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, वहीं फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो का शुद्ध नुकसान को सीमित बनाए रखने के बावजूद दबाव में बनी रही। ऑनलाइन फैशन एवं सौंदर्य उत्पाद बिक्रेता नायिका का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 59 प्रतिशत घटकर 28 करोड रुपये रह गया।

निवेश विश्लेषक अंबरीश बालिगा ने कहा, 'नायिका और पॉलिसीबाजार ने अपने आईपीओ में तेजी के लिहाज से मुनाफे में तेजी पर ध्यान दिया है।। मेरा मानना है कि यदि इनमें अचानक बदलाव आता है और उनके मुनाफे में किसी तरह की कमजोरी दिखती है तो बाजार इन्हें पसंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा. 'जोमैटो के नुकसान का सिलसिला भी बाजारों के लिए अनुकुल नहीं रहा है क्योंकि कंपनी का शेयर भाव 160 रुपये से अधिक के ऊंचे स्तर से गिरकर 90 रुपये से नीचे आ चुका है। पेटीएम को भी अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव लाने की जरूरत है।' जोमैटो का शेयर बुधवार को बीएसई पर 115 रुपये के सूचीबद्धता भाव के मुकाबले 26 प्रतिशत गिर गया, हालांकि गुरुवार

 विपणन में वृद्धि, कर्मचारी लागत से तीसरी तिमाही के

मुनाफे पर पड़ा दबाव

 कई सूचीबद्ध स्टार्टअप कंपनियों के शेयर अपने सूचीबद्धता भाव से नीचे कर रहे हैं कारोबार

तेजी आ चुकी है। पीबी फिनटेक गुरुवार को करीब 2.5 प्रतिशत के नुकसान के साथ एनएसई पर 755 रुपये पर बंद हुआ, वहीं नायिका में करीब 4 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई। यह शेयर 1,504.8 रुपये अपने सूचीबद्धता भाव के मुकाबले बड़ी गिरावट पर कारोबार कर रहा है। रेटगेन का शेयर

भी अपने सूचीबद्धता भाव से करीब 7 प्रतिशत नीचे हालांकि इन कंपनियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि इनके तीसरी तिमाही के राजस्व में विद्व दर्ज की गई है। जोमैटो का परिचालन से राजस्व 86 प्रतिशत बढ़कर 1,112 करोड़ रुपये हो गया, पेटीएम के लिए यह 89 प्रतिशत बढ़कर 1,456 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और पॉलिसीबाजार का

राजस्व 73 प्रतिशत चढकर 367 करोड रुपये पर पहुंच गया। नायिका ने सूचीबद्ध कंपनियों में राजस्व के लिहाज से सबसे कम तेजी दर्ज की और उसका राजस्व 36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,098 करोड़ रुपये पर रहा। लेकिन यह ऊंची विपणन और ग्राहक जोड़ने की लागत के साथ संभव हुआ है। उदाहरण के लिए, पॉलिसीबाजार का विपणन खर्च वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 199 प्रतिशत बढकर 236 करोड रुपये हो गया।

एरिस लाइफसाइंसेज की नजर इंसुलिन बाजार पर

मुंबई, 17 फरवरी

अहमदाबाद स्थित क्रोनिक थेरेपी-केंद्रित दवा कंपनी एरिस लाइफसाइंसेज (एरिस) इस महीने अपने स्वयं के इंसुलिन ब्रांड के साथ ऑलिगोपेलिस्टिक इंसुलिन बाजार में प्रवेश कर रही है। भारत में इंसलिन बाजार पर सनोफी और नोवो नॉर्डिस्क जैसी कंपनियों का दबदबा है। इंसुलिन के लिए भारतीय फार्मास्युटिकल बाजार (आईपीएम) 3,500 करोड़ रुपये का है। यह पिछले पांच साल के दौरान 10 प्रतिशत की सालाना दर से बढा है। एआईओसीडी फार्मासॉफ्टेक अवाक्स के दिसंबर 2021 तक के सालाना कारोबार के आंकड़े के अनुसार इस सेगमेंट में प्रख्यात कंपनियां हैं 50 प्रतिशत भागीदारी के साथ नॉर्डिस्क, सनोफी (22 प्रतिशत), ल्यूपिन (11 प्रतिशत), और बायोकॉन (७.५ प्रतिशत)।

ओरल एंटी-डायबेटिक दवा बाजार मौजुदा समय में करीब 12,000 करोड़ रुपये का है और यह पिछले पांच साल के दौरान 11 प्रतिशत की सालाना दर से बढा है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी वी इंसुलिन के लिए भारतीय फार्मास्युटिकल बाजार पिछले पांच साल के दौरान 10 प्रतिशत की सालाना दर से बढा है

कृष्णकुमार का कहना है कि दिसंबर 2021 तक एरिस का ओरल एंटी-डायबिटीज दवा बाजार में 4.3 प्रतिशत का नियंत्रण है और उसने अगले पांच साल में इंसुलिन सेगमेंट में 10 प्रतिशत भागीदारी का लक्ष्य रखा है।

एरिस करीब 140 चिकित्सा प्रतिनिधियों (बिक्री कर्मियों) के साथ अपने इंसुलिन डिवीजन को पेश कर रही है। पहले उत्पादों में मानव इंसुलिन (फरवरी) और फिर 'एरिस पेन' नामक इंसुलिन पेन (काट्रिज) को शामिल किया जाएगा।कंपनी ने वर्ष 2023 में इंसुलिन ग्लेरगिन को पेश करने की योजना बनाई है। पेश किए जाने वाले अन्य उत्पादों में एस्पार्ट, लिस्प्रो (फास्ट-एक्टिंग इंसुलिन) और लिरागल्यूटाइड शामिल हैं।

कृष्णकुमार का मानना है कि इंसुलिन बाजार अक्सर कुछ ही कंपनियों के दबदबे वाला

मिंत्रा और ओयों के अधिकारी अपस्टॉक से जुड़े

प्रख्यात डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक ने अपनी नेतृत्व टीम मजबूत बनाने के लिए मिंत्रा और ओयो के अधिकारियों को अपने साथ जोड़ा हैं। उसने हरीश नारायणन को मुख्य ग्रोथ ऑफी, जयंत चौहान को वरिष्ठ उपाध्यक्ष (फाइनैंस) और सौरभ अग्रवाल को उपाध्यक्ष (नई पहलों) के तौर पर नियुक्त किया है। नारायणन पूर्व में ऑनलाइन फैशन पोर्टल मिंत्रालय में मुख्य विपणन अधिकारी थे। वहीं चौहान ओयो में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फाइनैंस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और अग्रवाल रेवॉल्ट इंडिया में काम कर चुके हैं।

पीएसबी को 4,600 करोड़ रु. जुटाने की मंजूरी

पंजाब ऐंड सिंध बैंक (पीएसबी) ने गुरुवार को कहा कि उसके बोर्ड ने सरकार को तरजीही शेयर जारी कर 4,600 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाने की मंजूरी दे दी है।

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 RELEVANT PARTICULARS Date of incorporation of corporate debtor 05 March 1986 Registrar of Companies - Mumbai under the Companies Act, 1956 Authority under which corporate debtor is ncorporated/registered Corporate identity number/limited liability identification number of corporate debtor L65910MH1986PLC165645 Registered Office Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor Trade World, B-Wing, 7th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra, India 06 December 2021 corporate debtor 18 February 2022 Date of invitation of expression of interes The detailed invitation for expression of interes is available on the website of the corporate debtor at www.reliancecapital.co.in Eligibility for resolution applicants under The eligibility criteria for resolution applicants is available on the website of the corporate debtor ection 25(2)(h) of the Code is available at at www.reliancecapital.co.in Norms of ineligibility applicable under Kindly refer the most recent and updated version of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 available at https://ibbi.gov.in/legal-framework/act 11 March 2022 Last date for receipt of expression of interes Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants 16 March 2022 21 March 2022 Date of issue of final list of prospective 26 March 2022 esolution applicants Date of issue of information memorandum 21 March 2022 evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants Manner of obtaining request for resolution The Information Memorandum, Request for Resolution Plan (RFRP) and data room access emorandum and further information shall be granted to the qualified and eligible Potential Resolution Applicant(s) after signing the confidentiality undertaking by`such applicant(s Pursuant to the aforesaid, the Potential Resolutio Applicant(s) shall be required to send an email t cap.administrator@relianceada.com requestin or data room access, Information Memorandum Evaluation Matrix and the RFRP 6. Last date for submission of resolution plans 20 April 2022 Manner of submitting resolution plans to Through speed post / registered post or by handelivery in a sealed envelope addresses to the

Estimated date for submission of

esolution plan to the Adjudicating

Name and registration number of the

Address and email to be used for

22. Further Details are available at or with

Registered Address: Trade World, B-Wing, 7th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra, India Registered Email: rcap.administrator@relianceada.com Dal

2. Interim Resolution Professional / Resolution Professional shall mean an Administra appointed by Hon'ble National Company Law Tribunal vide its order no. CP (IB) - 1231/MB/2021 dated 6 December 2021 pursuant to the provisions of the FSP Insolvency Rules.

23. Date of publication of Form G

Name, Address, and e-mail of the resolution

professional, as registered with the Board

resolution professional

Administrator, together with a password

rcap.administrator@relianceada.com

Shri Nageswara Rao Y

Registered Address:

Registered Address:

Email request to

www.reliancecapital.co.in

As and when approved by the committee of creditors and no objection is issued by the Reserve

Bank of India as required in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("Code") read with the

Insolvency and Bankruptcy (Insolvency and Liquidation Proceedings of Financial Service Providers and Application to Adjudicating Authority) Rules, 2019 ("FSP Insolvency Rules")

Trade World, B-Wing, 7th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai - 400013, Maharashtra, India

Trade World, B-Wing, 7th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra, India

Email: rcap.administrator@relianceada.com

rcap.administrator@relianceada.com and / or the website of the Corporate Debtor

Date: 18 February 2022

एलआईसी आईपीओ आवेदन के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा बढ़ाएगा बैंक

नई दिल्ली, 17 फरवरी

सरकार ने सार्वजनिक व निजी बैंकों से 2 लाख रुपये तक के यपीआई भगतान के लिए प्रति लेनदेन की सीमा में इजाफा करने को कहा है ताकि एलआईसी आईपीओ के लिए यूपीआई के जरिए खुदरा निवेशकों के आवेदनों की कामयाबी की साथ प्रोसेसिंग हो जाए।

निवेश ਕ सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने आईपीओ के लिए तकनीकी तैयारी का जायजा लेने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, जिसने पाया कि यूपीआई के जरिए भुगतान का विकल्प चुनने पर खुदरा निवेशकों के कई आवेदन इसलिए फेल हो गए क्यों कि बैंकों ने प्रति लेनदेन की सीमा तय कर रखी है। अधिकारी ने यह जानकारी दी।

खुदरा निवेशक किसी आईपीओ में 2 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। यूपीआई की मौजूदा सीमा भी 2 लाख रुपये है, ■वर्किंग ग्रुप ने प्रति लेनदेन की सीमा के कारण यूपीआई के जरिए आईपीओ आवेदन की नाकामी देखी

■भुगतान के लिए यूपीआई का विकल्प चूनने वाले खुदरा निवेशकों को निराश न होना पड़े, यह सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है

■दिसंबर 2021 में एसबीआई में 19.6 करोड़ आईपीओ मैनडेट सृजित किए गए, जिसमें से 8.26 फीसदी लेनदेन की सीमा के कारण फेल हो गए

■एसबीआई ने 2 लाख रुपये तक के सभी लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन की सीमा बढ़ा

लेकिन अलग-अलग बैंकों की अपनी-अपनी लेनदेन सीमा है। यूपीआई के जरिये एक दिन में एक लाख रुपये खर्च किए जा सकते

हैं, लेकिन आईपीओ व बीमा भुगतान इस मामले में अपवाद है। हालांकि वर्किंग ग्रुप ने

विश्लेषण में पाया कि पिछले आईपीओ में आवेदन फेल होने का कारण बिजनेस डिक्लाइन रहा। इस मामले पर नैशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन संग चर्चा हुई और पाया गया कि ऐसी नाकामी प्रति लेनदेन की सीमा के कारण हो रही है, जिसे अलग-अलग बैंकों ने लागू किया है।

प्रति लेनदेन सीमा में बढोतरी, रोजाना की लेनदेन की अनुमन्य संख्या से ज्यादा होने और दिन के लिए तय सीमा से ज्यादा होने पर बिजनेस डिक्लाइन माना जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब 3,13,995 आईपीओ मैनडेट जनवरी 2022 में एसबीआई में सृजित हुए, जिसमे ंसे 12.51 फीसदी बिजनेस डिक्लाइन के चलते फेल हो गए। दिसंबर 2021 में 19.6 करोड़ मैनडेट एसबीआई में सृजित हुए थे, जिनमें से 8.26 फीसदी बिजनेस डिक्लाइन के चलते

आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड

आर सिस्टम्स इन्टरनशनल लिमिटेड (कारपोरेट पहचान संख्याः L74899DL1993PLC053579) systems पंजीकृत कार्यालयः जीएफ 1-ए, 6, देविका टॉवर, नहरू प्लेस नई दिल्ली - 110 019 कारपोरेट कार्यालय : सी-40, सेक्टर 59, नौयडा, जिला गौतम बुध नगर, उ०प्र०, इण्डिया - 201 307 दूरभाष : +91 120 4303500

वेबसाइट : www.rsystems.com; ईमेल : rsil@rsystems.com

शेयरधारकों हेतु सूचना

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के डीमैट खाते में इक्विटी शेयरों के स्थानांतरण के लिए

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 124 साथ में पठित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा अंतरण और वापसी) नियमन 2016 ("नियमन") के प्रावधानों के अंतर्गत उन शेयरों जिनके लाभांष का भगतान अथवा दावा लगातार सात वर्षों से नहीं किया गया है, कम्पनी को ऐसे शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ("आई ई पी एफ प्राधिकरण") द्वारा खोले गये डीमैट खाते ("आई ई पी एफ खाता") में हस्तांतरित करना है।

कम्पनी के रिकॉर्ड से ज्ञात हुआ है कि कुछ शेयरधारकों द्वारा दिसम्बर 31,2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के प्रथम अंतरिम लाभांष एवं उपरान्तर लाभांष लगातार सात वर्षों से नहीं भुनाये गये हैं।

उपरोक्त नियमन के अनुसार कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों, जिनके शेयर आई ई पी एफ खाते में हस्तांतरण के योग्य हैं, उन्हें व्यक्तिगत सचना भेजी है, ताकि उपयक्त दावा किया जा सके और लाभांष राशि के दावे के लिए अपेक्षित दस्तावेज जमा किये जा सकें। ऐसे शेयरधारक, जिन्होने अपने लाभांष लगातार सात वर्षों से नहीं भुनाये हैं एवं जिनके शेयर आई ई पी एफ खाते में हस्तांतरण योग्य हैं, उनकी एक सूची कम्पनी की वेबसाइट https://www.rsystems.com/investors-info/unpaid-and-unclaimed-dividend

शेयरधारकों से अनुरोध है कि बेदावा लाभांष और शेयर्स, दोनों जो आई ई पी एफ खाते में हस्तांतरित होने योग्य हैं, के विवरण के सत्यापन के लिए उपरोक्त वेब–लिंक का संदर्भ लें। शेयरधारक ध्यान दें कि बेदावा लाभांष और शेयर्स, दोनों जो आई ई पी एफ कोष/आई ई पी एफ खाते में हस्तांतरित किए गये हैं, इस तरह के शेयरों पर एकत्रित सभी लागों सहित, यदि कोई हो, वे नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण से वापस दावा किए जा सकते हैं। शेयरधारकों से वित्तीय वर्ष 2015 के प्रथम अंतरिम लाभांष के लिए मई 23, 2022 तक किसी भी नीचे दिये गये एक पते पर वैध दावे के प्राप्त न होने पर कम्पनी उपरोक्त नियमों के अनपालन में उपरोक्त शेयरों को बिना किसी पनः सचना के आई ई पी एफ खाते में हस्तांतरित कर देगी।

कृपया ध्यान दें कि बिना दावा वाले लाभांष राशि एवं शेयरों के आई ई पी एफ कोष/आई ई पी एफ खाते में हस्तांतरित होने पर, उपरोक्त नियमन के अनुसरण में कम्पनी के खिलाफ कोई दावा नहीं रहेगा।

शेयरधारक इस विषय में किसी भी पछताछ के लिए रजिस्टार एवं टांसफर एजेंट/कम्पनी के निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। आर सिस्टम्स इएन्टरनेशनल लिमिटेड

सी-40. सैक्टर-59. नौयडा-201 307

Email: investors@rsystems.com

Tel:+91-120-4303500

लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड नोबल हाईट्स. प्रथम मंजिल. प्लॉट न० एनएच-२. सी-1ब्लॉक. एलएससी, सावित्री मार्किट के नजदीक, जनकपुरी

नई दिल्ली - 110 058 Tel: +91 11 4141 0592, Fax: +91 11 4141 0591 Email: delhi@linkintime.co.in

दिनांक : 17.02.2022

स्थान : नौयडा (उ०प्र०)

कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड हता०/-भास्कर दुबे

(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

1.

3.

4.

6.

MINOR IRRIGATION DIVISION, DHANBAD **Short e-Procurement Notice** Tender Reference No. DMFT/MIDIV/DHANBAD/F2 - 15/2021-22, Date: 17-02-2022 Construction of G+1(Dinning Hall, Kitchen, Class Room, Integrated Lab, Computer Lab And Library) Building, Dinning Platform Name of the work And Ramp, Dismantling Old Damaged Building, Kitchen & Platform for Middle School, Salukchapra (Kaliyasol Block). Eatimated Cost (Rs.) Rs 82,11,000.00 Rs. 10,000.00 Cost of B.O.Q. (Rs.) Time of Completion 06 Months Last date/Time for receipt of bids online 12-03-2022 Up to 5:00 PM 05-03-2022 from 12:30 PM Date of Publication of Tender on website Date of Opening of Tender on website 16-03-2022 from 12:30 PM Executive Engineer, Minor Irrigation

Division, Luby Circular Road, Dhanbad -

826001

7004613452,

Dhanbad.eemi@gmail.com

7004613452

10. Helpline number of e-Procurement cell Note :- Only e-Tenders will be accepted.

Name & address of office Inviting tender

Contact details of e-Procurement officer

Further details can be seen on website http://jharkhandtenders.gov.in **Executive Engineer,** PR 264184 Minor Irrigation(21-22).D Minor Irrigation Division, Dhanbad MINOR IRRIGATION DIVISION, DHANBAD

Short e-Procurement Notice Tender Reference No. DMFT/MIDIV/DHANBAD/F2 – 07/2021-22, Date · 17-02-2022

Date: 17-02-2022							
Name of the work	Construction of Dinning Hall, Computer Room, Art &						
	Craft Room, Integrated Lab, Girls & Boys Toilet,						
	Auditorium Hall, Septic tank, Rain Water Harvesting,						
	Main Gate & Side Gate, Deep Boring, Dinning						
	Platform, Drinking water Point at U.H.S., Sohnad						
Eatimated Cost (Rs.)	Rs. 99,95,600.00						
Cost of B.O.Q. (Rs.) Rs. 10,000.00							
Time of Completion	06 Months						
Last date/Time for receipt of bids online	12-03-2022 Up to 5:00 PM						
Date of Publication of Tender on website	05-03-2022 from 12:30 PM						
Date of Opening of Tender on website	15-03-2022 from 12:30 PM						
Name & address of office Inviting tender	tender Executive Engineer, Minor Irrigation Division,						
	Luby Circular Road, Dhanbad - 826001						
Contact details of e-Procurement officer	7004613452,						
	Dhanbad.eemi@gmail.com						
Helpline number of e-Procurement cell	7004613452						
	Name of the work Eatimated Cost (Rs.) Cost of B.O.Q. (Rs.) Time of Completion Last date/Time for receipt of bids online Date of Publication of Tender on website Date of Opening of Tender on website Name & address of office Inviting tender Contact details of e-Procurement officer						

Note :- Only e-Tenders will be accepted.

Further details can be seen on website http://jharkhandtenders.gov.in

PR264164 (Minor Irrigation)21-22*D

Executive Engineer. Minor Irrigation Division, Dhanbad

MINOR IRRIGATION DIVISION, DHANBAD **Short e-Procurement Notice**

Tender Reference No. DMFT/MIDIV/DHANBAD/F2 – 17/2021-22, Date: 17-02-2022

1 1.	Name of the work	Renovation of School Building And Construction of							
		G+1 Building, 01 Unit Toilet, Kitchen Room, Parking							
		Stand, Assembly Stage, Rain Water Harvesting,							
		Boundary Wall with Concertina Wire And Ramp At							
		Middle School, Maithan, Area No. 06, Aamkura							
		(Egarkund Block).							
2.	Eatimated Cost (Rs.)	Rs 95,31,000.00							
3.	Cost of B.O.Q. (Rs.)	Rs. 10,000.00							
4.	Time of Completion	06 Months							
5.	Last date/Time for receipt of bids online	12-03-2022 Up to 5:00 PM							
6.	Date of Publication of Tender on website	05-03-2022 from 12:30 PM							
7.	Date of Opening of Tender on website	16-03-2022 from 12:30 PM							
8.	Name & address of office Inviting tender Executive Engineer, Minor Irrigation Divis								
••	Traine or didness of office in thing tender	Luby Circular Road, Dhanbad - 826001							
9.	Contact details of e-Procurement officer	7004613452,							
		Dhanbad.eemi@gmail.com							
10.	Helpline number of e-Procurement cell	7004613452							
Note :- Only e-Tenders will be accepted.									

Further details can be seen on website http://jharkhandtenders.gov.in Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Dhanbad PR 264187 Minor Irrigation(21-22)D

बैंक ऑफ़ बड़ीदा Bank of Barod * Stemar UD DENK

DELHI SOUTH DELHI - 110017 Delhi

Zonal Stressed Assets Recovery Branch, 13th Floor, Bank of Baroda Building, 16, Sansad Marg, New Delhi - 110001, INDIA Ph: 011 23441330, 23441329 E-mail: armdel@ban

Letter no. BOB/ZOSARB/2021/2 M/s Radikal Foods Ltd, Registered address: B-1 Ground Gloor Saket M/s Radikal Foods Ltd, Business address: 28 Radikal House Delhi 110017. Mr Senik Rewani, VILLAGE HARAIKURUWA POST OFFICE - Mr Mangtu Ram, JAHADOO ALWAR, RAJASTHAN, Rajasthar

Community Centre Saket New Delhi 110017

GALGALTAND THANA CHANDANKIYARI, BOKARO, Jharkhand, 301035, India 828134, India Mr Shimbhu Lal, W-22/C-6A,KH NO 595/707 MAIN WESTERN AVENUE Mr Chandra Prakash Chaudhary, D-119 GROUND FLOOR SAKET NEW DELHI 110017 SAINIK FARM, KHANPUR, SOUTH DELHI, Delhi, 110062, India

Mrs Anju Chaudhary, D-119 GROUND FLOOR SAKET NEW DELHI Mr Siddharth Chaudhary, D-119 GROUND FLOOR SAKET NEW DELHI 110017 M/s Shreedhar Estates Pvt Ltd, M/s Radikal International Pvt Ltd, B-1 FIRST FLOOR SAKET Delhi B-1 FIRST FLOOR, SAKET Delhi -110017 M/s Tirumala Vanijaya Pvt Ltd, B-1 FIRST FLOOR, SAKET Delhi M/s Kundan Commercial Pvt ltd. B-1 FIRST FLOOR, SAKET Delhi -110017 Ms Anindita Chaudhary, D-119 GROUND FLOOR SAKET, NEW

Re: Declaration of M/s.Radikal Foods Ltd and its Directors/ Guarantors as Wilful Defaulters

We refer to our show cause notice no. BOB/ZOSARB/1765 dated 16.07.2020 for declaring M/s.Radikal Foods Ltd. and its directors & Guarantors narth Chaudhary, Anju Chaudhary, directors Anindita Chaudhary, Senik Rewani, Mangtu Ram, Simbhulal and Chandra Prakash Chaudhary, Sid guarantors Shreedhar estates Pvt Ltd , Radikal International Pvt Itd , Kundan Commercial Pvt Itd , Tirumala Vanijaya pvt Itd as wilful defaulters on

Wilful defaulter as per guidelines of RBI on the following grounds mentioned by Forensic Auditor M/s PVRN & Co by its report dated 10.08.2019: There was an issue of Share capital / Share premium of Rs 212.92 crores during the period of review. On review of financial statements by Forensic Auditors of entities who invested in Share Capital of RFL downloaded from MCA website, it was observed that there was no major business transaction in many of these companies. These companies further received funds from other entities to invest in RFL. It is highly improbable for a non-related company to provide loan to a company with no major business transaction. With respect to one of the entity, M/s Kundan Commercial Private Limited, it was observed that M/s Kundan Commercial Private Limited received unsecured loans from corporate entities of Rs. 28.32 crores in FY 2012-13 which were further invested in the Shares of Radikal Foods Limited. Out of Rs. 28.32 crores,

Kundan Commercial Private Limited received Rs. 9.00 crores from Parton Vanjiya Pvt. Ltd. and Rs. 5.65 crores from Liberal Tradecom Pvt. Ltd. Further on review of Financial Statements of M/s Liberal Tradecom Private Limited downloaded from MCA website, it was observed that it received funds in the form of investment in Share capital from M/s Belong Vintrade Private limited and M/s.Lemon Tracom Private Limited. On review of Financial Statements of M/s.Parton Banijya Private Limited downloaded from MCA website, it was observed that it received funds in the form of investment in Share capital from M/s Belong Trading Private limited and M/s Desire Vanijya Private Limited. However, on review of Financial Statements downloaded from MCA website of all the above 4 stated companies. i.e. M/s Belong Vintrade

Private limited, M/s Lemon Tracom Private Limited, M/s Belong Trading Private limited and M/s Desire Vanijya Private Limited, it was obs that these companies had not made any investments in any companies The director of Belong Vintrade Pyt, Ltd., Lemon Tracom Pyt, Ltd., Desire Vaniiya Pyt, Ltd., and Belong Trading Pyt, Ltd. is Mr. Jagmal Singh who

is also the director in Radikal International Pvt. Ltd. a related party of borrower (based on common directors) as disclosed in Audited Financial

Hence, all these companies were indirectly being managed by the borrower and may diverted the funds.

As per Audited Financial Statement of FY 2015-16, company sold the inventory in loss due to this gross profit margin which was 17.53% in FY 2014-15 was reduced to -58.43% in FY 2015-16 after the account was classified as NPA. Hence, it appears that the inventory sold by the company during the financial year were not in arm length price as compared to previous years. (As no information has been provided to them by the Company, they are not able to verify inflated turnover / fictitious sales and/or Sales on Return (SOR) basis where profit has been booked and sales returned in the subsequent accounting period leading to writing off of stocks/debtors and reversal of booked profits.)

On verification of Bank Statements of Consortium Lenders, borrower had made transactions of substantial amount with parties who might be related and not disclosed in the Audited Financial Statement. The details of regarding such transaction are mentioned in main report(Bank Wise) The borrower also repaid the unsecured loan of earlier years and Share Application money amounting to Rs. 13.50 crores and Rs. 7.00 crores respectively, received from Nilay Nirman Pvt. Ltd. Further, as per information and narrations available with them, the Company repaid unse loans taken from related parties even prior to repayment of facilities obtained from various banks. (pg no-122)

Due to non-availability of Books of accounts. Forensic auditor compared Stock Statements with Audited Balance Sheets for year end. They were nde available Stock Statement as on 25.03.2015. When they compared Stock Statement as on 25.03.2015 vs Audited Financial Statement as

on 31.03.2015, it appears that overstated Stock Statements were being submitted by the Company to the Bank 10. Fraudulent transactions under Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations 2016-On the basis of limited informatio

available with them, they hereby state as under: -They were made available Stock Statement as on 25.03.2015. When they compared Stock Statement as on 25.03.2015 vs Audited Financial

Statement as on 31.03.2015, it appears that overstated Stock Statements were being submitted by the Company to the Bank. Investments have been made in Share capital of Radikal Foods Limited (Borrower) by companies which had no major business transactions are

were directly / indirectly related with the borrower. Transactions have taken place in banks outside consortium; however, no approval was given by consortium members for the same.

1.The company was having average net profit of 17% during preceding 3 years. However, after the account was classified as NPA, the company booked a loss of 58% as stated above. Hence, it appears that stock was inflated and was sold off at loss after the account was

classified as NPA falling under the definition of fraud. Further, the realization for sale of goods was made in banks outside consortiu amounting to diversion of funds. 12. Borrower received unsecured loan in FY 2012-13 of Rs.7.00 crores from Kundan Commercial Private Limited and from Tirrumala Vaniiva Priv Limited of Rs. 15.00 crores. These unsecured loans were settled through allotment of shares of Radikal Foods Limited in FY 2013-14. Further borrower also repaid the unsecured loan of earlier years and Share Application money amounting to Rs. 13.50 crores and Rs. 7.00 crores respectively

received from Nilay Nirman Pvt. Ltd. As you are aware that our branch had sent the show cause notice referred above by registered post/speed post/courier on 22/07/2020, which you have received on 28/07/2020 Even after receipt of the above referred show cause notices, we have not received any representation or re-

In the light of the aforesaid facts and circumstances, and perusing the documents on record the Committee of Executives on Wilful Defaulters

(COE) of bank has decided to declare M/s.Radikal Foods Ltd. and its directors & Guarantors Chandra Prakash Chaudhary, Siddharth Chaudhary Anju Chaudhary, directors. Anindita Chaudhary, Senik Rewani, Mangtu Ram, Simbhulal and guarantors. Shreedhar estates Pvt Ltd., Radikal International Pvt ltd., Kundan Commercial Pvt ltd., Tirumala Vanijaya pvt ltd as 'Wilful Defaulters' on the grounds mentioned in the show cause notice, after concluding that Company has defaulted in meeting its payment/ repayment obligations to the lender and has siphoned off/diverted the unds so that the funds have not been utilized for the specific purpose for which finance was availed of, nor are the funds available with the unit in the The decision of the COE was conveved vide our letter No.ZOSARB/2021/1 dated 28.01.21 with an opportunity for submission of further

entation, if any, for consideration by the Review Committee on Wilful Defaulters, In terms of RBI guidelines and to comply principles of

In response to the COE decision, we have not received any further representation or response from you.

In the aforesaid circumstances, after perusal of documents on record received, Bank's Review Committee on Wilful Defaulters in its meeting held

on 19.05.21 confirmed the decision of the Committee of Executives on Wilful Defaulters (COE).

Thus after following the due procedure, it has been decided to declare /s.Radikal Foods Ltd. and its directors & Guarantors Chandra Prakash Chaudhary, Siddharth Chaudhary, Anju Chaudhary, directors Anindita Chaudhary , Senik Rewani , Mangtu Ram, Simbhulal and guarantors Shreedhar estates Pvt Ltd , Radikal International Pvt ltd , Kundan Commercial Pvt ltd , Tirumala Vanijaya pvt ltd as Wilful Defaulters. Bank reserves be Right to publish the name and photograph of Wilful Defaulter in News Paper and will initiate the necessary recovery action as per extant guidelines issued by Reserve Bank of India.

This communication is issued as per the directions of the Review Committee on Wilful Defaulters

Yours faithfully (Branch Manager)

R SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED

[Corporate Identity Number: L74899DL1993PLC053579] Registered Office : GF-1-A, 6, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi- 110019 Corporate Office: C-40, Sector 59, NOIDA, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P., India - 201 307 Tel: +91 120 4303500

Website : www.rsystems.com; Email : rsil@rsystems.com **NOTICE TO SHAREHOLDERS**

For Transfer of equity shares to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund Authority

In terms of Requirements of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the "Rules"), the Company is mandated to transfer such shares in respect of which the dividence has remained unpaid or unclaimed for a period of seven consecutive years to the Demat account ("IEPF Account") as opened by the Investo Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority").

It is noticed from the records that certain shareholders of the Company have not encashed their dividends for seven consecutive years since the declaration of First Interim Dividend 2015 for the financial year ended December 31, 2015 and onwards

In compliance with the said Rules, the Company has sent individual notices to all the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPE Account for taking appropriate action and submitting requisite documents to claim the unclaimed dividend amount(s) A list of such shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable fo transfer to the IEPF Account, is available on the website of the Company at https://www.rsystems.com/investors-info/unpaid-and-unclaimed-

The Shareholders are requested to refer to the above web-link to verify the details of unencashed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Account. Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF Fund/IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure

In case of non-receipt of valid claim by the shareholder for the First Interim Dividend 2015 by May 23, 2022 at any one of the below mentioned addresses, the Company shall, in compliance with the requirement of the Rules, transfer the said shares to IEPF account without any further

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuan

In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Registrar and Transfer Agent/ Company at the following address

Link Intime India Pvt. Ltd. Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1, Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 Tel: +91 11 4141 0592. Fax: +91 11 4141 0591

R Systems International Limited C-40. Sector-59. NOIDA-201307 Tel:+91-120-4303500 Email: investors@rsystems.com

For R Systems International Limited

Bhasker Dubey Date: 17.02.2022 (Company Secretary & Compliance Officer) Place: Noida, (U.P.)

केनरा बैंक Canara Bank 🕸

SAMBHAVNATH JAIN, MANDIR, SALLOSBURY

PARK, PUNE (MAHARASTRA) 411037, (2) MR.

NITIN ANUPAM KUMAR SINGHAL S/O ANUPAM

KUMAR SINGHAL, (DIRECTOR), F45 MANEK MOTI

ANCH MARG OFF YARI ROAD, ANDHERI WEST

MUMBAI (MAHARASTRA-400061, (3) MR. MADAN

LAL KESAIMAL SONIGARA S/Ò KESARIMAL

KISHANLAL SONIGARA, (DIRECTOR) MADANLAL

CANTT.PUNE 412101. (4) MR. YOGESH KANDHARI

S/O KISHAN CHAND KANDHARI, VENETIAN LDF

Date: 18.02.2022 Place: Rajasthan

Date of 13(2)

Email: delhi@linkintime.co.in

Branch: BHIWADI-I BRANCH(2822) Branch: VAISHALI-I BRANCH (2793) Branch: SETHI COLONY BRANCH (18301)

DEMAND NOTICE

Description of the

Notice u/s 13(2) of Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002(hereinafter called 'Act')

Notice for the period of 60 days was given under section 13(2) of above act to the following borrowers to deposit loan amount and future interest due to NPA of their account by the authorized officer of the bank. According to the notice if the loan amount not deposited within 60 days, the said amount was to be recovered under provision of section 13(4) of the said act. The Branch has not received the acknowledgement of said notice/returned undelivered which was sent to you under said act. Therefore this is to inform through notice that deposit the loan amount with future interest and expenses within 60 days from this notice, hence further steps will be taken by the bank under provisions of section 13 and 14 of the said Act.

Name and Address of the Outstanding Amount

Demand Notice Borrower/Guarantor	& NPA Date	Movable/Immovable Property		
31/01/2022 Borrower:-M/s Raghav Automobiles Components, Prop:-Mr. Narender Singh Raghav S/o Mahender Singh, Plot No. H-866, RIICO, INDUSTRIAL AREA, Khushkhera, Bhiwadi, Tehsil-Tijara, DisttAlwar, Rajasthan-301019. Branch: BHIWADI-I BRANCH(2822) Loan A/c Number: 2822261000119 & 2822766000047	Rs. 6913005.88/- (Rupees Sixty-Nine Lakh Thirteen Thousand Five and Eighty- Eight Paisa Only) Liability with Interest as on 13.08.2021 NPA Date: 29/01/2022	Name of Title Holder- Shri Narender Sing Raghav S/o Shri Mahender Singh. Plot No. H 8 6 6 , RIICOINDUSTRIALARE. KhushkheraBhiwadi,Teh - Tijara, Distt -Alwa (Raj), Measuring 751.0 Sq. Mtrs. Boundaries East: Road 12.0 Mts. Wide, West: Private Lanc North: Plot No. H-867, South: Plot No. H-865.		
31/01/2022 Borrower:- M/S UB Industry, PROPRIETOR: MR. BALRAM SAINI S/O BABULAL SAINI, SHOP NO. F-32 (FIRST FLOOR) P NO. A-10, "ALANKAR PLAZA", CENTRAL SPINE, VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302039. (PROPRIETOR) SHRI BALRAM SAINIS/O BABU LAL SAINI, 3 SHIV COLONY, MURLIPURA, JAIPUR-302039. Branch: VAISHALI-I BRANCH (2793) Loan A/c Number: 2793261000226, 2793755000036 & 2793753000004	Rs. 4298052.49 (Forty-Two Lakh Ninety- Eight ThousandFifty-Two Rupees andForty-Nine Paisa Only) Liability with Interest as on 01/01/2022 NPA Date: 29/01/2022	Name of Title Holder: Sh. Bal Ram Saini S/o Sh Balulal Saini. SHOP NO. F-32 (FIRST FLOOR) F NO. A-10, "ALANKAR PLAZA", CENTRAL SPINE VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR-302038 Bounded: On the North by: SHOP NO F-33, Or the South by: SHOP NO F-31, On the East by TERRACE - 2.7 mtr., On the West by: SHOP NO. F-97. Movable: Hypothecation of Stocks and book Debts: Name of Title Holder: M/S UB INDUSTRY		
31/01/2022 Borrower: (1) M/S NEEMRANA ESTATE PRIVATE LIMITED, (CIN NO U45201RJ2011PTC035 966), PLOT AT KHASRA NO. 967 & 968 AT VILLAGE CHOBARA, SHAHAJANPUR, NEEMRANA OFF.NH-8, TEH. BEHROR, DISTRICT-ALWAR, RAJASTHAN-301706. (1)MR. DHANRAJ KESARIMAL SONIGARA S/O KESARIMAL SONIGARA, (DIRECTOR), FLAT NO 302, III RD FLOOR, MARIGOLD, OPP.	Rs. 2,08,98,756.00 (Forty-Two Crore, Eight Lacs Ninety-Eight Thousand Seven Hundred Fifty six Only) Liability with Interest as on 31.01.2022 NPA Date: 29/01/2022	Charge by way of mortgage of land and proposed construction thereon, situated at Ploat Khasra No. 967 & 968 at Village Chobara Shahajanpur, Off. NH-8, Teh . Neemrana District -Alwar, Rajasthan-301706excluding th following: i. Shop No. 1 to 4, 9 to 11, 14 to 2: & 24, which are already mortgaged with M/Bhalla Finance Pvt. Ltd. for Term Loan of '75.00 A-602. A-604. A-701. A-702. A-704 and B-705.		

lakh, ii, Flat no. A-504, A-601, A-602, A-604, A-701, A-702, A-704, and B-703 which are mortgaged with M/s KHDT Finance Company Ltd. for Term Loan of 75.00 lakh. iii. Flats at E Wing For EWS/LIG to be alloted by UIT i.e Flat No E 301 to E-904 total 28 flats, iv. 25% share of the land owners in the project Details of share of land owners Share in Shopline - Shop No. 5 to 8, 12 to 13 25 to 26, 31 to 32 total of 10 shops, share in Flats- Flat No A-203, A-303, A 403,A-503,A-603,A-703,A-803,A-903,B-104,B-106,B-204,B-206,B-304,B 306.B-404.B-406.B-504.B-506.B-604.B-606.B-704.B-706.B-804.B-806.B 904.B-906.E-103.E-203 total of 28 flats. v. Flats already Sold out (Details

KESRIMAL SONIGARA HOUSE NO 97 FAST MUMBAI PUNE ROAD, NEAR VEGETABLE MARKET, S.No. Flat No. Name of the Buyer MAIN BAZAR, DEHUROAD, KIVALE, DEHU ROAD

A-201 Mrs.Anshum Malhotra

A-202 Mr. Vipin Gupta

					3,40,77,516	2,11,03,201
ı	shri Hari Singh Yadav S/o Jagmal Singh Yadav	20	B-805	Ankita (Madhav)	14,70,760	6,61,842
ı	Name of Title holder : Shri Giriraj Singh Yadav and	19	B-605	Himmat Singh	16,88,376	10,00,000
ı	Sq.Mtrs.	18	B-505	Ashok Kumar Dwivedi	20,75,446	9,04,326
ı	by: Other land, Total Admeasuring: 12969.36	17	B-408	Mrs. InduKumari	21,78,750	12,80,347
ı	by: Land Bearing Khasra No 974, 983, On the West	16	B-405	Mr. Banwari Lal	19,77,973	76,000
ı	No 969, On the South by: 18 mtr Road, On the East	15	B-403	Lekhram	16,08,125	10,60,000
ı	Boundaries: On the North by: Land Bearing Khasra		02	Mrs. Archana Jain	15,53,573	11,81,001
ı	Loan A/c Number: URYOSLM192840007	14	B-402	Mr. Nimesh &	10,00,070	11,70,400
ı	301706, Branch: SETHI COLONY BRANCH (18301)	'3	5 701	Mrs. Archana Jain	15.53.573	11.76.469
ı	SHAHJAHANPUR, TEH BEHROR, ALWAR(RAJ)	13	B-401	Mr. Nimesh &	10,00,570	10,50,000
ı	Residing at: KHASPUR MOHALLA	12	B-305	Himmat Singh	16.88.376	10.50.000
ı	JAGMAL SINGH YADAV (GUARANTOR) Both are	11	B-303	Raiendra Singh Raiput	15.95.707	9.76.480
ı	(GUARANTOR) (3) SHRI. HARI SINGH YADAV S/O	10	B-208	Mr. Puneet Mehta	18,68,147	8.40.870
ı		9	B-203	Mr Dinesh Kumar Mangal		11.73.750
ı	SINGH YADAV S/O JAGMAL SINGH YADAV.	8	A-502	Mr. Ajay Dhumne	15,53,573	12,94,230
ı	GURUGRAM, HARYANA-122002, (2) SHRI.GIRIRAJ	7	A-501	Mr. Aiav Dhumne	15.53.573	13.09.788
ı	Residing at: SECOND FLOOR SCO 320, SECTOR-29	6	A-304	Mr. AvinashVite	15.85.307	13.09.642
ı	LDF PROJECT LLP (GUARANTOR) Both are	5	A-302	Ms. Akshita Mehta	17.65.657	11.91.584
ı	MUNJAL S/O NIHAL CHAND MUNJAL, VENETIAN	4	A-301	Mr. Vipin Gupta	15.53.573	12.83.252
	PROJECT LLP (DIRECTOR), (1) MR. SOMNATH	3	A-204	Mr. Avinash Vite	15.85.307	13.09.642

Authorised Officer, Canara Bank

Deal Amount | Amount Receive

18 68 147

15.53.573

till date

12.83.425

APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 23.09.2021 calling upon the Borrower(s) AMIT CHOPRA, AMIT CHOPRA; PC JEWELLER LTD, 2517, HUDSON LANE, KINGSWAY CAMP, VIJAY NAGAR, DESIGNATION: ASS MANAGER, NEW DELHI, DELHI - 110007, ANSHU CHOPRA: JEEWAN MALA HOSPITAL PVT, LTD., 67/1, NEW ROHTAK ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI, DELHI - 110008, ANSHU CHOPRA; 2497, 2ND FLOOR, PUNJABI BASTI, SABZI MANDI, DELHI, NEW DELHI, DELHI - 110007. PREM CHAND; 2436, PUNJABI BASTI, SABZI MANDI, GHANTA GHAR, NEW DELHI, DELHI - 110007, NARENDER KUMAR; HOUSE NO.54, AFJALPUR, NEAR BHARAT CITY, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201001 to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 10,69,936.11 (Rupees Ten Lakh(s) Sixty Nine Thousand Nine Hundred Thirty Six And Paise Eleven Only) against Loan Account No. HHLVAS00183085 as on 21.09.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 15.02, 2022.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs 10 69 936 11 (Rupees Ten Lakh/s) Sixty Nine Thousand Nine Hundred Thirty Six And Paise Eleven Only) as on 21.09.2021 and interest thereon

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO-F-3, 1ST FLOOR, LIG, PLOT NO-E-52, BLOCK-E, SLF VED VIHAR, GHAZIABAD. UTTAR PRADESH - 200111. Authorised Officer Date: 15.02.2022

INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED Place: GHAZIABAD

> APPENDIX IV [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas.

The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 10.09.2021 calling upon the Borrower(s) SANTOSH KUMAR, SANTOSH KUMAR: H. NO. RC-26. 1ST FLOOR, GALI NO. 4. PRAKASH NAGAR, KHORA COLONY, NOIDA NEAR MAYUR VIHAR, PHASE-3, TERMINAL & CNG PETROL PUMP, NOIDA, UTTAR PRADESH - 201301, LOVELY KUMARI; H NO. RC-26 1ST FLOOR, GALI NO. 4, PRAKASH NAGAR, KHORA COLONY, NOIDA, MAYUR VIHAR, PHASE-3 TERMINAL, CNG PETROL PUMP, NOIDA, UTTAR PRADESH - 201301, HARSH PANDEY; B-2/36A, B2-BLOCK, YAMUNA VIHAR. NEW DELHI, DELHI - 110053, MANOJ KUMAR; S/o. MAHENDAR SINGH, A-65, DEFEANCE COLONY, BHOPURA, RAJ RETREAT GROUP HOUSING GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201001 to repay the amount mentioned in the Notice being Rs. 12.37.946.32 (Rupees Twelve Lakh(s) Thirty Seven Thousand Nine Hundred Forty Six And Paise Thirty Two Only) against Loan Account No. HHLDMT00464060 as on 26.06.2021 and interest thereon within 60 days from he date of receipt of the said Notice

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 15.02.2022

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.12,37,946.32 (Rupees Twelve Lakh(s) Thirty Seven Thousand Nine Hundred Forty Six And Paise Thirty Two Only) as on 26.06.2021 and interest thereon

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY FLAT NO. SF-1, 2ND FLOOR, FRONT RHS, PLOT NO. F-50, SLF VED VIHAR, GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201102.

Authorised Officer Place: GHAZIABAD INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

> [See rule 8 (1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

APPENDIX IV

Whereas. The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING

FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 19.02.2020 calling upon the Borrower(s) KAMAL PURI, SANJEEV KUMAR PURI, SUNIL PURI, TANU PURI, RAJNI PURI, ANITA PURI, RAJ KUMARI AND ADVANCE PRINT MEDIA PVT. LTD. to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.1,77,28,451/- (Rupees One Crore Seventy Seven Lakhs Twenty Eight Thousand Four Hundred Fifty One Only) against Loan Account No. HHLDCP00088383 as on 19.02.2020 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice

The Borrower(s) having failed to repay the amount. Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 15.02.2022.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.1,77,28,451/- (Rupees One Crore Seventy Seven Lakhs Twenty Eight Thousand Four Hundred Fifty One Only) as on 19.02.2020 and interest thereon. The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

UNIT/VILLA NO.B-015 HAVING APPROX. SUPER AREA OF 357.68 SQUARE METERS EQUIVALENT TO 3850 SQUARE FEET IN THE BUILDING "KINGSWOOD ORIENTAL" IN THE PROJECT KNOWN AS "JAYPEE GREENS" SITUATED IN SECTOR - 128, NOIDA - 201301, UTTAR PRADESH, WHICH IS BOUNDED AS FOLLOWS:

EAST : AS PER TITLE DEED WEST : AS PER TITLE DEED NORTH: AS PER TITLE DEED SOUTH: AS PER TITLE DEED

Date: 15.02.2022 Authorised Officer INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED Place: NOIDA















